



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 6—जनवरी 12, 2008, शनिवार/पौष 16—पौष 22, 1929
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 6—JANUARY 12, 2008, SATURDAY/PAUSA 16—PAUSA 22, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1969 को, जहां तक उनका संबंध उप सम्पादक (हिंदी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में उप सम्पादक (हिंदी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय [उप सम्पादक (हिंदी)] भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
उप सम्पादक (हिंदी)	1*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	9	10
					प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11

12

सम्मिलित पद्धति (प्रतिनियुक्ति धन प्रोन्नति)

प्रतिनियुक्ति धन प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500—7000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/कृषि अर्थशास्त्र विषय के साथ हिंदी में स्नातक डिग्री या समतुल्य रखता हो; और

(ii) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत चित्रण टाइपोग्राफी की जानकारी के साथ पत्रिकाओं, पुस्तकों और रिपोर्टों का संपादन, मुद्रण और प्रस्तुति का अनुभव भी है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पत्रकारिता या मुद्रण में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण : ऐसे विभागीय तकनीकी सहायक (हिंदी) पर, जिन्होंने 4500—7000 रुपए के वेतनमान की उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/04-ई-II-ई एस]

के. संजयन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 2nd January, 2008

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Economics and Statistics (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, in so far as they relate to the post of Sub-Editor (Hindi) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Editor (Hindi), in the Directorate of Economics and Statistics in the Department of Agriculture and Cooperation of the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics [Sub-Editor (Hindi)] Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Sub-Editor (Hindi)	* 1 (2007) *Subject to variation depending on workload.	*General Central *Service, Group 'B' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 5,500-175-9000	N.A.	N.A.
Age limit for direct recruitment		Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
N.A.		N.A.		N.A.	2 years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment/promotion/deputation/absorption and percentage of the Vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11

12

Composite methods (Deputation plus Promotion)

Deputation plus Promotion :—

Officers under the Central Government :—

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/Department;

(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) (i) possessing Bachelors Degree in Hindi with Economics/ Agricultural Economics as recognized University or equivalent; and

(ii) two years experience of translation from English to Hindi and vice-versa including experience in editing, printing and production of magazines, books and reports with knowledge of layout typography.

Desirable :—Diploma in journalism or printing from a recognized Institute or equivalent.

Note : The Departmental Technical Assistant (Hindi) in the pay scale of Rs. 4,500-7000 with six years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications).

If Departmental Promotion Committee exists, what its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

N.A.

Consultation with UPSC necessary

[F. No. A-12018/1/04-E. II-ES]

K. SSANJAYAN, Under Secy.

17 GI/08-2

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2008

सा. का. नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा एकीकृत मात्स्यकी परियोजना (वर्ग III) भर्ती नियम, 1973, का जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक तथा प्रसंस्करण सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन एकीकृत मात्स्यकी परियोजना, कोचीन के प्रसंस्करण सह-गुणवत्ता आश्वासन पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिर्माण करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मात्स्यकी परियोजना, प्रसंस्करण सह-गुणवत्ता आश्वासन पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है
1	2	3	4	5	6
1. प्रसंस्करण सह गुणवत्ता आश्वासन पर्यवेक्षक	08*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग' अराजपत्रित) अननुसचिवीय।	5000-150- 8000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
18 एवं 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्षों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्षों तक शिथिलनीय टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में स्थित अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीती जिले और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में मात्स्यकी विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायलाजी या खाद्य प्रौद्योगिकी में बेचलर डिग्री। 2. मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों या किसी विख्यात विश्लेषण प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यकी विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायलाजी में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1 : ऐसे अभ्यर्थी जो सुयोग्य नहीं हैं, के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधीन अर्हताएं शिथिलनीय होगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता शिथिलनीय होगी जब चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने की उपलब्धता की संख्या नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
11	12		
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
13	14		
विभागीय प्रोन्नति समिति वर्ग "ग" (सीधी भर्ती की पुष्टिकरण के विचार करने के लिए) में ये शामिल हैं : (1) निदेशक एकीकृत मात्स्यकी परियोजना कोचीन (2) उप-निदेशक (पी. एण्ड एम.) एकीकृत मात्स्यकी परियोजना कोचीन (3) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकविद	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य		

[फा. सं. 5-1/2005-मात्स्यकी प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 1st January, 2008

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Laboratory Assistant and Processing Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Processing-cum-Quality Assurance Supervisor in the Integrated Fisheries Project, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Assistant Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Fisheries Project, Processing-cum-Quality Assurance Supervisor, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, its classification and scale of pay.—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post limit, age qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing so, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Processing-cum-Quality Assurance Supervisor	08* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Between 18 and 27 years (Relaxable for Central Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (1) Bachelor's degree in Fishery Science or Biochemistry or Microbiology or Food Technology of a recognized University. (2) Two years experience in fish processing plants or analytical laboratory of repute. Desirable : Master's degree in Fishery Science or Biochemistry or Microbiology or Food Technology of a recognized University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
11		12	
Direct recruitment		Not applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
13		14	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Direct Recruits) consisting of :—		Not applicable	
(1) Director, Integrated Fisheries Project, Cochin		—Chairman	
(2) Deputy Director, (P&M) Integrated Fisheries Project, Cochin		—Member	
(3) Processing Technologist		—Member	

[F. No. 5-1/2005-Fy. Admn.]
SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

17 GI/08-3

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 6.—दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी

2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर
(प्रति वर्ग मी.)

1. रोहिणी प्लॉट
 - (क) ईडब्ल्यूएस 26 वर्ग मी. 4905.00 रु.
 - (ख) एलआईजी 32 वर्ग मी. 6193.00 रु.
 - (ग) एमआईजी 60 वर्ग मी. 10058.00 रु.

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
2. आवासीय स्कीम
 - (क) ईडब्ल्यूएस 2577.00 रु.
 - (ख) एलआईजी 3865.00 रु.
 - (ग) एमआईजी 6441.00 रु.
 - (घ) एसएफएस 7730.00 रु.

(फ्लैटों की बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास की लागत को जोड़ा जाए)
3. वैकल्पिक प्लॉट 6193.00 रु.
(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
4. सीजीएचएस के लिए भूमि 7730.00 रु.
5. जे.जे. स्क्वेटर्स (पुनर्वास) 22.90 लाख रु. प्रति एकड़
(आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

[सं. के-20014/3/2007-डी डी. II ए]

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th January, 2008

G.S.R. 6.—In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under:—

Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV and V for 2007-08 (per sq. mtr.)
1. Rohini Plots	
(a) EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
	(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2. Housing Scheme	
(a) EWS	Rs. 2577.00
(b) LIG	Rs. 3865.00
(c) MIG	Rs. 6441.00
(d) SFS	Rs. 7730.00
	(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 3. | Alternative Plots | Rs. 6193.00
(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges) |
| 4. | Land for CGHS | Rs. 7730.00 |
| 5. | J.J. Squatters (Resettlement) | Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD) |

These rates are effective for the financial year 2007-08.

[No. K-20014/3/2007-DD. IIA]

S. N. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 7.—दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

- | | |
|---------------------------------|--|
| भूमि की श्रेणी | 2007-08 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें
(प्रति वर्ग मी.) |
| 1. सीजीएचएस के लिए भूमि | 7602.00 रु. |
| 2. वैकल्पिक भूखण्ड | 6108.00 रु.
(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है) |
| 3. डीडीए आवासीय स्कीम | |
| (क) एसएफएस | 7602.00 रु. |
| (ख) एमआईजी | 6335.00 रु. |
| (ग) एलआईजी | 3801.00 रु. |
| (घ) ईडब्ल्यूएस | 2534.00 रु.
(फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए) |
| 4. जे. जे. स्कवेटर्स (पुनर्वास) | 22.90 लाख रु. प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है) |

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

[सं. के-20014/2/2007-डी.डी. II ए]

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2008

G.S.R. 7.—In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :—

- | | |
|----------------------------------|---|
| Category of Land | Approved pre-determined rates for Narela for 2007-08
(per Sq. Mtr.) |
| 1. Land for CGHS | Rs. 7602.00 |
| 2. Alternative Plots | Rs. 6108.00
(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges) |
| 3. DDA Housing Schemes | |
| (a) SFS | Rs. 7602.00 |
| (b) MIG | Rs. 6335.00 |
| (c) LIG | Rs. 3801.00 |
| (d) EWS | Rs. 2534.00
(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats) |
| 4. J.J. Squatters (Resettlement) | Rs. 22.90 lakh per acre
(excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD) |

These rates are effective for the financial year 2007-08.

[No. K-20014/2/2007-DD. IIA]

S. N. GUPTA, Under Secy.